

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा -षष्ठ

दिनांक -05-07-2020

विषय -हिन्दी (व्याकरण)

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

सुप्रभात बच्चों कल आप सब कारक परिभाषा एवं कर्ता कारक के बारे में अध्ययन किए थे, आज कर्म कारक एवं करण कारक के बारे में अध्ययन करेंगे।

कर्म कारक

कर्म कारक की परिभाषा

वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गयी क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है।

कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह 'को' होता है।

कर्म कारक के उदाहरण

सीता ने गीता को बुलाया।

ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा कि आपने देखा को शब्द का प्रयोग हो रहा है। यह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है।

इससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कि गयी क्रिया का असर गीता पर पड़ रहा है। अतः गीता कर्म कहलाएगी। अतएव यह उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आयेगा।

बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए।

ऊपर दिए गए वाक्य में आप देख सकते हैं कि को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है।

यह चिन्ह हमें बताता है की वाक्य में कि गयी क्रिया का असर किस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ रहा है। यहाँ कर्म बड़े लोग हैं। अतएव ये उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आयेगा।

राम ने रावण को मारा।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं कि मारने की क्रिया कि जा रही है।

इस क्रिया का असर रावण पर पड़ रहा है। अतः रावण कर्म कहलायेगा। इस वाक्य में को विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। अतः ये उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा।

कर्म कारक के कुछ अन्य उदाहरण

- गोपाल ने राधा को बुलाया।
- रामू ने घोड़े को पानी पिलाया।
- मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया।
- अध्यापक छात्रों को पीटता है।

ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अतः ये सभी उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएंगे।

करण कारक

करण कारक की परिभाषा

वह साधन जिससे क्रिया होती है, वह करण कहलाता है। यानि, जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता वह करण कारक कहलाता है।

करण कारक की विभक्ति- करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं- से और के द्वारा।

करण कारक के कुछ उदाहरण

वह लड़का ठण्ड से काँप रहा था।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं, 'से' विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। हम जानते हैं कि यह चिन्ह करण कारक का होता है।

इससे हमें क्रिया के होने के साधन का पता चलता है। इस वाक्य में कर्म ठंडं कर्म है। क्योंकि इसकी वजह से ही काँप रहा था। अतः यह उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आयेगा।

राम ने बाली को बाण से मारा ।

गृहकार्य -

- (क) कर्म कारक किसे कहते हैं?
- (ख) करण कारक किसे कहते हैं?
- (ग) कर्म कारक के चार उदाहरण लिखें?

ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे और याद करेंगे।